



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2010/माघ 16, 1931

No. 220]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2010/MAGHA 16, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2010

का.आ. 262(अ).—यतः, मै सोहना विल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा राज्य के गाँव सोहना, तहसील-सोहना, जिला गुडगाँव में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने हरियाणा राज्य के गाँव सोहना, तहसील-सोहना, जिला गुडगाँव में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 14 जनवरी, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 13 की उप-धारा (1), धारा 53 की उप-धारा (2) तथा धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में :

(i) केन्द्र सरकार, एतद्वारा गाँव सोहना, तहसील-सोहना, जिला गुडगाँव, हरियाणा में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती हैं जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्र.सं.	मुसतीकल संख्या	किला संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	281	1	0.405
2.		2	0.405
3.		3	0.405
4.		4	0.405
5.		7	0.04
6.		9	0.405
7.		10	0.405
8.		11	0.405
9.		12	0.405
10.		13	0.405
11.		14	0.405
12.		15/1	0.06
13.		18	0.405
14.		19	0.405
15.		22	0.405
16.		23	0.405
17.		24	0.405
18.		25/1	0.1
19.	278	23	0.405
20.		24	0.405
21.		25/1	0.227
22.	281	7	0.405
23.		8	0.405
24.	281	16/2	0.055

(1)	(2)	(3)	(4)
25.		17	0.405
26.	281	20	0.405
27.		21	0.405
28.	278	21	0.405
29.		22	0.405
		कुल	10.202

(ii) केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति भी गठित करती है, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

- विशेष आर्थिक जोन का विकास —अध्यक्ष, पदेन आयुक्त
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, —सदस्य, पदेन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामित जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकारी रखने वाला संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक —सदस्य, पदेन
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकारी रखने वाला सीमा-शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त या उसका नामित जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकारी रखने वाला आयकर आयुक्त अथवा उसका नामित जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
- निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार —सदस्य, पदेन
- हरियाणा सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
- मै. सोहना विल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि —विशेष आमंत्रित

(iii) केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक नवम्बर, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/पत्तन माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/116/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2010

S.O. 262(E).—Whereas, M/s. Sohna Buildcon Private Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Electronic Hardware including Information Technology/Information Technology Enabled Services Sector at Village Sohna, Tehsil-Sohna, District-Gurgaon in the State of Haryana;

And, whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development operation and maintenance of the sector Specific Special Economic Zone for Electronic Hardware including Information Technology/Information Technology Enabled Services Sector at Gurgaon, Haryana on 14th January, 2008;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, sub-section (1) of Section 13, sub-section (2) of Section 53 and sub-section (1) of Section 11 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006;

(i) the Central Government hereby notifies the following area at Village Sohna, Tehsil-Sohna, District-Gurgaon in the State of Haryana, comprising of the Survey numbers and the area given below in the table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

S.No.	Mustikal No.	Kila No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	281	1	0.405
2.		2	0.405
3.		3	0.405
4.		4	0.405
5.		7	0.04
6.		9	0.405
7.		10	0.405
8.		11	0.405
9.		12	0.405
10.		13	0.405
11.		14	0.405
12.		15/1	0.06
13.		18	0.405
14.		19	0.405
15.		22	0.405

(1)	(2)	(3)	(4)		
16.		23	0.405	3. Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	—Member, ex-officio
17.		24	0.405		
18.		25/1	0.1		
19.	278	23	0.405	4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member, ex-officio
20.		24	0.405		
21.		25/1	0.227		
22.	281	7	0.405		
23.		8	0.405		
24.	281	16/2	0.055	5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member, ex-officio
25.		17	0.405		
26.	281	20	0.405		
27.		21	0.405		
28.	278	21	0.405		
29.		22	0.405	6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	—Member, ex-officio
Total			10.202	7. Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Haryana	—Members, ex-officio
				8. Representative of M/s. Sohna Buildcon Private Limited (Developer)	—Special Invitee

(ii) the Central Government hereby also constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone —Chairperson ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member, ex-officio

(iii) the Central Government hereby also appoints the day of November, 2009 as the date from which the above sector specific Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot/Port under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[No. F. 1/116/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.